



सराहनीय कार्य दिनांक 15.08.2022 थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद ।
थाना मक्खनपुर पुलिस व क्राइम ब्राँच टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 04 शातिर
चोरों को किया गिरफ्तार ।

अभियुक्तों के कब्जे से एक ट्रक, चोरी के 1080 टिन रिफाइन्ड तेल व 1510 कार्टून
रिफाइन्ड तेल (रागा गोल्ड कंपनी) कीमत करीब 40 लाख रुपये बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पर्यवेक्षण में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम व क्राइम ब्राँच टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर रुपसपुर शिवा ढाबा के पास से 04 शातिर चोर 1. अनवर इकबाल, 2. अलीशान, 3. तारिक, 4. सुहैल खां को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से एक ट्रक नं0 GJ 34 T 2961, जिसमें चोरी के 1080 टिन रिफाइन्ड तेल मय 1510 कार्टून रिफाइन्ड तेल (रागा गोल्ड कंपनी) बरामद हुए हैं।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ट्रक चालक अभियुक्त अनवर इकबाल ने बताया कि यह ट्रक मेरे साढ़ू के नाम है जिसको मैं चलाता हूँ तथा ट्रक की किश्त भी मैं ही अदा करता हूँ इसी ट्रक से **अडानी बिलमार लिमिटेड हजीरा सूरत गुजरात से लुधियाना** के लिये माल लोड करके ले जा रहा था। रास्ते में मुझे लालच आया कि मेरे ट्रक की किश्त बाकी है इसी तेल को बेचकर ट्रक की किश्त एवं अन्य खर्चों के लिये हम लोग आपस में मिलकर योजना बनाकर ट्रक को फिरोजाबाद की सीमा में लेकर आये थे और मैंने तारिक व सुहैल खां से तेल बिचवाने हेतु सम्पर्क किया तथा तारिक व सुहैल ने कहा कि अभी पांच टिन बेचकर कुछ पैसा आपको अभी दे दोगे शेष बिकने पर आपको पैसा मिल जायेगा। गाडी के पास जो पांच टिन रिफाइन्ड तेल रखा है वह मेरी ही गाडी के है जिसे सुहैल और तारिक मुझसे खरीदकर ले जा रहे थे कि तभी आप लोगो ने हमें पकड लिया।

साथ ही अभियुक्तों ने बताया कि माल बेचने के बाद हम ट्रक के किसी सुनसान जगह पर खड़ा कर लूट दिखा देते। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मक्खनपुर पर मु0अ0सं0 278/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण:-

1. अनवर इकबाल पुत्र अब्दुल अजीज निवासी लखनू थाना कटकम सांडी जिला हजारी बाग झारखण्ड हाल पता गुड्डू मार्केट सर बिलाल स्कूल के पास रसूलपुर फिरोजाबाद।

2. अलीशान पुत्र अली अकबर निवासी आकाशवाणी रोड बाबा मैरिज होम बाली गली मोहल्ला अजमेरी गेट थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद ।
3. तारिक पुत्र नौसे निवासी मोहल्ला हबीबगंज थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
4. सुहैल खां पुत्र गुलजार निवासी दीदामई थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद ।

बरामदगी:-

1. एक अदद ट्रक नं0 GJ 34 T 2961 ।
2. 1080 टीन रिफाइन्ड तेल ।
3. 1510 कार्टून रिफाइन्ड तेल (रागा गोल्ड कंपनी)
कीमत करीब 40 लाख रुपये ।

अभियुक्त अनवर इकबाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 278/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।

अभियुक्त अलीशान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 278/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0 179/22 धारा 147/232/506 भादवि थाना रसूलपुर फिरोजाबाद ।

अभियुक्त तारिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 278/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।

अभियुक्त सुहेल खाँ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 278/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री महेश सिंह थानाध्यक्ष थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
2. श्री रवि त्यागी प्रभारी एसओजी टीम फिरोजाबाद ।

एसओजी टीम:- है0का0 प्रशान्त कुमार, है0का0 अमित चौहान, है0का0 करनवीर सिंह, का0 पवन कुमार, का0 विजय कुमार का0 दिलीप कुमार का0 प्रेम कुमार का0 उग्रसेन का0 संदीप कुमार चा0का0 रमाकान्त एसओजी टीम फिरोजाबाद ।

सर्विलांस टीम:- उ0नि0 नितिन त्यागी प्रभारी सर्विलांस टीम, का0 अमित उपाध्याय का0 अनिल कुमार का0 रघुराज सिंह है0का0 जय नारायण का0 प्रवीन कुमार का0 देवेन्द्र कुमार का0 कृष्ण कुमार का0 लोकेश गौतम सर्विलांस टीम फिरोजाबाद ।

थाना मक्खनपुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 घनश्याम सिंह थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
2. है0का0 02 सहदेव सिंह का0 1066 प्रवेन्द्र कुमार का0 624 विष्णु कुमार ।